

## अभिभावक द्वारा एसएलएफसी की सदस्यता हेतु आवेदन के लिये भरा जाने वाला प्रपत्र

विद्यालय का नाम .....  
विद्यार्थी की एन.आई.सी. आई.डी. ....

अभिभावक का नाम .....  
लिंग .....  
.....

अभिभावक की शैक्षिक योग्यता (निरक्षर/साक्षर/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च  
माध्यमिक/स्नातक/स्नातकोत्तर) :— .....

अभिभावक के आधार नम्बर :— .....

मोबाईल नम्बर :— .....

- मैं विद्यालय विकास एवं गुणवतापूर्ण शिक्षा के बारे में सामान्य समझ रखता हूँ।
- वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखा की सामान्य जानकारी रखता हूँ।
- विद्यालय द्वारा छात्रहित में लिये जाने वाले निर्णय में भागीदार रहुगा।
- मेरा पुत्र/पुत्री आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत निःशुल्क अध्ययनरत है।
- मैं एसएलएफसी का सदस्य चुने जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

हस्ताक्षर  
अभिभावक